



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112023-250154
CG-DL-E-20112023-250154

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4768]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 2023/कार्तिक 26, 1945

No. 4768]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 2023/KARTIKA 26, 1945

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2023

का.आ. 4977(अ).— भारत सरकार को लोक हित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पश्चिम बंगाल राज्य में बरौनी - गुवाहाटी पाइपलाइन (बीजीपीएल) प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और भारत सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, भारत सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियाँ साधारण जनता को उपलब्ध कर

दी जाती है, इक्कीस दिनों के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाईन बिछाए जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, गेल (इण्डिया) लिमिटेड को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

बरौनी - गुवाहाटी पाइप लाइन परियोजना अनुसूची							
राज्य - पश्चिम बंगाल							
जिला	थाना	मौजा	थाना नं.	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6		
दार्जिलिंग	फांसीदेवा	महिपाल	८८	221	00	23	08
				223	00	02	62
				224	00	03	57
				225	00	04	34
				226	00	00	06
				1111	00	03	69
				1112	00	01	41
				239	00	00	23
				275	00	01	00
				1137	00	11	90
				277	00	15	35
				278	00	04	67
				283	00	04	01

बरौनी - गुवाहाटी पाइप लाइन परियोजना अनुसूची							
राज्य - पश्चिम बंगाल							
जिला	थाना	मौजा	थाना नं.	सर्वे नं.	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6		
दार्जिलिंग	फांसीदेवा	लालदास	८९	626	00	04	19
				625	00	13	44
				622	00	03	46
				621	00	01	65
				620	00	03	77
				619	00	02	61
				618	00	10	85
				616	00	00	10
				607	00	06	08
				605	00	01	31

					604	00	13	97
					603	00	00	30
					601	00	01	41
बरौनी - गुवाहाटी पाइप लाइन परियोजना अनुसूची राज्य - पश्चिम बंगाल								
जिला	थाना	मौजा	थाना नं.	सर्वे नं.	क्षेत्रफल			
					हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर			
1	2	3	4	5	6			
दार्जिलिंग	फांसीदेवा	लिउसीपुकुरी	८४	1841	00	02	11	
					1842	00	18	59
					1843	00	02	70
					1846	00	00	36
					1503	00	04	76
					1502	00	04	41
					1501	00	01	01
					1499	00	00	53
					1498	00	32	84
					1497	00	05	33
					1495	00	00	50
					1494	0	03	58

[फा. सं. – एल-14014-244-2022-जी पी – II(ई-45379)]

रामजीलाल मीना, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2023

S.O. 4977(E).— Whereas it appears to Government of India that it is necessary in public interest that for transportation of natural gas through Barauni – Guwahati Gas Pipeline (BGPL) in the State of West Bengal, a Pipeline should be laid by GAIL (India) Limited;

And, whereas it appears to Government of India that for the purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the schedule annexed to this notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in land) Act, 1962 ,(50 of 1962) Government of India hereby declares its intention to acquire the Right of User therein;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty-one days from the date of which the copies of the notification issued under sub – section (1) of section 3 of the said Act, as published in the Gazette of India are made available to the general public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to Competent Authority, GAIL(India) Limited,

BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT							
SCHEDULE							
State : West Bengal							
District	Thana	Village	JL No.	Survey No.	Area		
					Hect.- Are - Sq. mtr.		
1	2	3	4	5	6		
Darjeeling	Phansidewa	Mahipal	88	221	00	23	08
				223	00	02	62
				224	00	03	57
				225	00	04	34
				226	00	00	06
				1111	00	03	69
				1112	00	01	41
				239	00	00	23
				275	00	01	00
				1137	00	11	90
				277	00	15	35
				278	00	04	67
				283	00	04	01

BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT							
SCHEDULE							
State : West Bengal							
District	Thana	Village	JL No.	Survey No.	Area		
					Hect.- Are - Sq. mtr.		
1	2	3	4	5	6		
Darjeeling	Phansidewa	Laldas	81	626	00	04	19
				625	00	13	44
				622	00	03	46
				621	00	01	65
				620	00	03	77
				619	00	02	61
				618	00	10	85
				616	00	00	10
				607	00	06	08
				605	00	01	31
				604	00	13	97
				603	00	00	30
				601	00	01	41

BARAUNI - GUWAHATI PIPELINE PROJECT SCHEDULE State : West Bengal							
District	Thana	Village	JL No.	Survey No.	Area		
					Hect.- Are - Sq. mtr.		
1	2	3	4	5	6		
Darjeeling	Phansidewa	Liusipukuri	84	1841	00	02	11
				1842	00	18	59
				1843	00	02	70
				1846	00	00	36
				1503	00	04	76
				1502	00	04	41
				1501	00	01	01
				1499	00	00	53
				1498	00	32	84
				1497	00	05	33
				1495	00	00	50
				1494	0	03	58

[F. No. L-14014-244-2022-GP-II (E-45379)]

RAMJI LAL MEENA, Under Secy.